

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग संदिग्ध वाहन/ व्यक्ति के दौरान 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश राहुल नट को चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध असलाह सहित किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.05.21 को थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा एटा चौराहा से सर्विश रोड से 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश राहुल नट पुत्र राजू नट निवासी गोपीनाथ अड्डा थाना कोतवाली मैनपुरी को चोरी की मोटर साईकिल व एक अदद तमंचा 315 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक आधार कार्ड थाना शिकोहाबाद के मु0अ0सं0 213/20 दारा 395/412 भादवि से सम्बन्धित तथा एक हजार रुपये थाना टूण्डला के मु0अ0सं0 190/21 धारा 395/412 भादवि से सम्बन्धित बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 320/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 321/21 धारा 41/102 सीआरपासी व 411/414 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त द्वारा अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर दिनांक 03.04.2021 को रात्रि में 22.15 बजे श्री रणवीर सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह नि0 आसबल मन्दिर संगम विहार दिल्ली को अटिका गाडी में बेठाकर 6000 रुपये कैश, चैन, अंगूठी व मोबाईल लूट लिया था। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 213/21 धारा 392 भादवि थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/20 दारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था। उक्त अभियुक्त पर दिनांक 21.04.2021 को 20000 रुपये का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा घोषित किया गया था जिसे आज चोरी की मोटरसाईकिल व तमंचा तथा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-राहुल नट पुत्र राजू नट निवासी गोपीनाथ अड्डा थाना कोतवाली मैनपुरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल नट उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 213/21 धारा 395/412 थाना शिकोहाबाद
- 2 मु0अ0सं0 320/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद
- 3.मु0अ0सं0 321/21 धारा 41/102 सीआरपासी व 411/414 भादवि थाना शिकोहाबाद
- 4.मु0अ0सं0 190/21 धारा 395/412 भादवि थाना टूण्डला।

बरामदगी:-

- 1.एक अदद मोटर साईकिल पैंशन प्रो न0 यूपी 840 के 4082
- 2.एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. एक हजार रुपये थाना टूण्डला के मु0अ0सं0 190/21 से सम्बन्धित
4. एक आधार कार्ड थाना शिकोहाबाद के मु0अ0सं0 213/21 से सम्बन्धित

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार मलिक थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 2-उ०नि० मौ० खालिद थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 3-उ०नि० श्री अंकित मलिक थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 4-उ०नि० श्री नरेन्द्र सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 5-है.का. 681 हरेन्द्र सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 6- का० 73 भूरी सिंह थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- 7- का. 673 सत्यपाल थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।